



IPR & ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT CELL
SHRI RAM COLLEGE
Circular Road, Muzaffarnagar

SRC/MZN/IPR/2019-20

Dated: 31/08/2019

NOTICE

It is to inform all students and faculty members that a one day awareness workshop on "Intellectual property rights (IPR) and entrepreneurship development(ED)" is being organised by the cell on 07/09/2019 i.e. Saturday.

The seminar is conducted to create awareness among the students and faculties about the intellectual property rights. The guest speakers will be Mr. Vikas, Mr. Sanchit and Mr. Sangeet, Founders, Shri Ram Technologies and Mr. Anas, Founder, GroAmrit Organics.

Kindly ensure presence of students and faculties in SRC auditorium on abovementioned date at 10.30 AM.

(Dr. Sourabh Jain)
Co-ordinator, IPR & ED cell

CC to:

1. Principal, SRC, Mzn
2. IQAC, SRC, Mzn
4. All the members of the cell for necessary action
5. All the HoDs for cooperation and participation
6. PS to Honourable Chairman for kind information

Co-ordinator
IQAC, Shri Ram College,
Muzaffarnagar

Principal
Shri Ram College
Muzaffarnagar



IPR & ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT CELL
SHRI RAM COLLEGE
Circular Road, Muzaffarnagar

SRC/MZN/IPR/2019-20

Dated: 09/09/2019

SEMINAR REPORT

A one day awareness workshop was conducted by the cell on 07/02/2019 on Intellectual property rights (IPR) and entrepreneurship development (ED). The main agenda of the workshop was to enlighten participants about intellectual property rights and motivate students for innovative idea development. The keynote speaker were Dr. Aaditya Gautam, Director, SRC and Dr. Vinit Kumar Sharma, Dean (Academics), SRC. The workshop was started with lamp lighting by DR. Alok Gupta, Director, SRGC; Dr. Prerna Mittal, Dr. Aditya Gautam, Mr. Manish Jain, Secretary, IIA-Muzaffarnagar. and Dr. Sourabh Jain, co-ordinator, IPR&ED Cell.

After lamp lighting, Mr. Shrikant Singh, Member, IPR & ED cell welcomed all the guests and participants and further briefly explained the working and functioning of cell. After that, Mr. Vikas & Mr. Sangeet previous incubatees of cell who have started their successful venture Shri Ram Technologies threw light on working and process of intellectual property rights. His keynote address highlighted various stigmas and question surrounding the issue. Also, he explain the type os IPR such as patent, trademark, copyrights and trade secrets. Mr. Anas, Founder, GroAmrit Organics on the other hand, in his address highlighted the importance of entrepreneurship and how to create and develop the required skills and environment for the same.

Speakers thanked to the cell and their mentors for their continuous support and guidance. After their address, they answered various queries of students on how to start a start-up.

After the keynote address, Dr. Sourabh Jain congratulated the speakers and participants and motivated students to develop entrepreneurship through small projects/innovative ideas with the help of cell.

The workshop ended with distribution of mementoes and certificates to the speakers. In total, 83 participants attended the workshop.

(Dr. Sourabh Jain)
Co-ordinator, IPR & ED cell

CC to:

1. Principal, SRC, Mzn
2. IQAC, SRC, Mzn

Co-ordinator
IQAC, Shri Ram College,
Muzaffarnagar

Principal
Shri Ram College
Muzaffarnagar




 Co-ordinator
 IOAC, Shri Ram College,
 Muzaffarnagar


 Principal
 Shri Ram College
 Muzaffarnagar

श्रीराम में हुआ बौद्धिक सम्पदा उद्यमिता का आयोजन

शाह टाडुम्म नगरे
मुजफ्फरनगर श्रीराम कॉलेज के बौद्धिक सम्पदा एवं उद्यमिता विकास द्वारा स्टाार्ट अप टिक का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय के एवं छात्र श्रीराम टेकनॉलॉजीज के संस्थापक विकास कुलश्रेष्ठ, संगीत शोहर एवं सीधत कुलश्रेष्ठ तथा श्री अमृत अर्चिकम्म के भी अग्रम मुख्य वक्ता रहे। राम नगर का मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्टाार्ट अप या लघु उद्योग प्रारम्भ करने के लिए प्रेरित करना रहा।



सर्वप्रथम श्रीराम टेकनॉलॉजीज के संस्थापक और एक सफल स्टाार्ट अप का संभालन कर रहे संगीत शोहर एवं विकास कुलश्रेष्ठ ने छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा की सालों से यह स्पष्ट हो चुका है कि उद्यमशीलता लगातार आर्थिक विकास में महायुक्त प्रदान करती है। एक शोध को आर्थिक रूप में बदलना उद्यमशीलता के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विचारशील बिन्दु है। दीर्घकाल तक ही कि आर्थिक उन्नति उन लोगों के द्वारा सम्भव है विकसित हो पाते हैं जो उद्यमी के रूप में पढ़ते हैं।

का अपना न मानें। जो बौद्धिक उद्यमिता मानते हैं तथा ऐसे में अक्सर का पीछा करते हैं जो कि दुसरों के द्वारा मुश्किल या भय के कारण न पहचाना गया हो। उदाहरण स्वरूप उन्होंने छात्र अभियोजन तकनीक का विवरण दिया और ये भी बताया की कैसे इस तकनीक के माध्यम में आज वो अपने ऑफिस में बैठे हुए शाहर के पानी का प्रकाश निर्मित कर रहे हैं। उन्होंने कहा की विद्युत से व्यवसाय करने के बहुत से अवसर हैं। उनका आधार मानव की आवश्यकताएं हैं जैसे खास, फंडेशन शिक्षा आदि जिनमें इंटरनेट परिवर्तन हो रहे हैं। आम आदमी को इन अवसरों को

समझ नहीं होती किन्तु एक उद्यमी उनको अन्य व्यक्ति को तुलना में शीघ्रता से शोध लेता है। अतः एक उद्यमी को अपनी आंख और कान खुले रखने चाहिए तथा विचार शक्ति, मुक्तचिंतक और नवीनता की ओर अग्रसर रहना चाहिए। डॉ. आदित्य शोभम, प्राचार्य डॉ. प्रेरणा

मिशन एवं डॉक्टर विनीत कुमार शर्मा द्वारा वक्ताओं का प्रतिक्रिया देकर सम्भाषित किया गया। इस अवसर पर निशानि राठी, प्रभात कुमार, डॉ. मौरभ मिश्र, डॉ. पुजा तोमर, विकास कुमार त्यागी, विकास कुमार त्यागी, अंकित कुमार रवि शोभम, रूपल मलिक आदि प्रबन्धनायक उपस्थित रहे।

पंचायत कर्मचारियों को दिये प्रशस्ति पत्र

शाह टाडुम्म संवाददाता
पुरकाजी नगर पंचायत पुरकाजी का आर्द्राणक प्रमाण पत्र तथा 6 सफाई कर्मचारियों को अन्ध कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्भाषित किया गया। नगर पंचायत के सभाघर में सफाई कर्मचारियों को एक दिवसीय कार्यशाळा में पहले स्थानीय निकाय के प्रधानी अधिकाारी अजय कुमार मखन्डा भारत मिशन के सीधोपम काजीन मिह, अजय चौधरी, अधिशासकी अधिकारी शाहर के नगर प्रमुख एवं अन्ध से अन्धता से अन्धों के कल्याण के लिए

किया गया। योगेश्वर प्र. प्रदीप को बौद्धिक सम्पदा एवं उद्यमिता विकास द्वारा स्टाार्ट अप टिक का आयोजन किया गया।

श्री राम कॉलेज में युवा उद्यमियों ने दिए स्टार्ट अप टिक

(एन एन एम)
मुजफ्फरनगर श्रीराम कॉलेज के बौद्धिक सम्पदा एवं उद्यमिता विकास द्वारा स्टाार्ट अप टिक का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय के एवं छात्र श्रीराम टेकनॉलॉजीज के संस्थापक विकास कुलश्रेष्ठ, संगीत शोहर एवं सीधत कुलश्रेष्ठ तथा श्री अमृत अर्चिकम्म के भी अग्रम मुख्य वक्ता रहे। राम नगर का मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्टाार्ट अप या लघु उद्योग प्रारम्भ करने के लिए प्रेरित करना रहा।

सर्वप्रथम श्रीराम टेकनॉलॉजीज के संस्थापक और एक सफल स्टाार्ट अप का संभालन कर रहे संगीत शोहर एवं विकास कुलश्रेष्ठ ने छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा की सालों से यह स्पष्ट हो चुका है कि उद्यमशीलता लगातार आर्थिक विकास में महायुक्त प्रदान करती है। एक शोध को आर्थिक रूप में बदलना उद्यमशीलता के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विचारशील बिन्दु है। दीर्घकाल तक ही कि आर्थिक उन्नति उन लोगों के द्वारा सम्भव है विकसित हो पाते हैं जो उद्यमी के रूप में पढ़ते हैं।



अध्यक्षता में दिए प्रशस्ति पत्र के मुख्य वक्ता डॉ. मौरभ मिश्र के अंत में अर्चिकम्म राठी शोभम और अजय कुमार शर्मा के अंतर्गत प्रमुख वक्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्भाषित किया गया। इस अवसर पर निशानि राठी, प्रभात कुमार, डॉ. मौरभ मिश्र, डॉ. पुजा तोमर, विकास कुमार त्यागी, विकास कुमार त्यागी, अंकित कुमार रवि शोभम, रूपल मलिक आदि प्रबन्धनायक उपस्थित रहे।

श्रीराम कॉलेज में युवा उद्यमियों ने दिए स्टार्ट अप टिक का आयोजन किया गया। योगेश्वर प्र. प्रदीप को बौद्धिक सम्पदा एवं उद्यमिता विकास द्वारा स्टाार्ट अप टिक का आयोजन किया गया।

Co-ordinator
 IQAC, Shri Ram College,
 Muzaffarnagar

Principal
 Shri Ram College
 Muzaffarnagar